

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1982/फाल्गुन 15, 1903

No. 87] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1982/PHALGUNA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अस मंत्रालय

प्रादेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1982

क्रि०अ० 127 (अ) :—यतः इससे उपान्वत अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद राष्ट्रीय
औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री चित्तामन ठुकाराम दिवे जिनका मुख्यालय बम्बई
है, के समक्ष लम्बित पड़े हैं;

और, यतः श्री सी० टी० दिवे की सेवायें अब उपलब्ध नहीं रही हैं;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33अ की
उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7अ द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करती है; जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० बी०
काम्बली होंगे जिनका मुख्यालय बम्बई में होगा और उक्त श्री सी० टी० दिवे पीठासीन अधि-
कारी, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण जिनका मुख्यालय बम्बई है, के समक्ष लम्बित उक्त विवाद
से सम्बद्ध कार्यवाही की वापस लेती है और उसे श्री एम० बी० काम्बली पीठासीन अधिकारी,
राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण जिनका मुख्यालय बम्बई में होगा, के इस निदेश के साथ स्थाना-
न्तरित करती है कि उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण प्रागे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा जिस
पर वह उसे स्थानान्तरित की जाये तथा विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा।

अनुसूची

प्रादेश संख्या और तारीख	पक्षकारों के नाम
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के प्रादेश संख्या एल-29011/6/81-डी-3 (बी) तारीख 19-3-1981	सैसर्स असोसिएटेड सिमेंट, कं० लि०, जिसके मुख्यालय बम्बई है, के प्रबन्धतंत्र व उनके कामगारों जिनका प्रतिनिधित्व (i) इंडियन नेशनल सिमेंट एण्ड ब्रलाइड वर्कर्स फेडरेशन बम्बई और (ii) भाल इंडिया सिमेंट वर्कर्स फेडरेशन, ग्रामा-सावरा (कर्नाटका) ने किया, के मध्य औद्योगिक विवाद।
	[सं० एल-29011/6/81-डी-3 (बी)] शशि भूषण, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1982

S.O. 127 (E):— Whereas, the Industrial Dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri Chintaman Tukaram Dighe, Presiding Officer of the National Industrial Tribunal with Headquarters at Bombay;

And, whereas, the services of Shri C.T. Dighe are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7B read with Sub-section (1) of Section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes a National Industrial Tribunal with Headquarters at Bombay, the Presiding Officer of which shall be Shri M.D. Kamble, and withdraws the proceedings in relation to the said dispute pending before the said Shri Chintaman Tukaram Dighe, Presiding Officer, National Industrial Tribunal, Headquarters at Bombay, and transfers the same to Shri M.D. Kamble, Presiding Officer, National Industrial Tribunal with Headquarters at Bombay with the direction that the said National Industrial Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Name and date of the Order	Name of the parties
Order No. L-29011/6/81-D. III B dated the 19th March, 1981 from Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.	The management of M/s Associated Cement Companies Ltd., Head Office Bombay and their workmen represented by (i) Indian National Cement and Allied Workers Federation, Bombay and (ii) All India Cement Workers Federation, Ammasandra (Karnataka).
	[No. L-29011/6/81-D-III-(B)] SHASHI BHUSHAN, Under Secy.